भारत सरकार वतितमंत्रालय वति्तीयसेवाएं वभाग

लोक सभा

अतारांकति प्रश्ना संख्या 3500

जिसका उत्तर15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया **किसान करेडिटकारड**

3500. श्रीधन्ष एमः क्मारः

श्रीजसवंतसहि स्मनभाई भाभोरः

क्या वत्तिमंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) उन छोटे और सीमांत किसानों की संख्या कितनी है जो किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येकवर्ष के दौरान गुजरात और तमिलनाडु सहित देश में किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने किसानों को कितना ऋण प्रदानकिया गया है;
- (ख) क्या सरकार ने तमलिनाडु सहित देश में उक्त योजना के बारे में छोटे और सीमांत किसानों में जागरुकता फैलाने के लिए कोई कदम उठाया है;
- (ग) कसान क्रेडिटकार्डयोजना के अंतर्गतकितने ऋण तीन लाख र्पए से अधिक वाले ऋण हैं; और
- (घ) क्या सरकार का किसानों के बढ़ते हुए व्ययों को दृष्टि में रखते हुए किसान क्रेडिटकार्डयोजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डधारकों को प्रदान किए जाने वाले निर्धारित ऋणों की राशि में वृद्धीं करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्मंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीअनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): राष्ट्रीयकृष और ग्रामीणविकास बैंक (नाबार्ड)द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, क्षेत्रीय्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा पछिले तीन वर्षके दौरान जारी किसान क्रेडिटकार्ड(केसीसी) की संख्या और स्विकृत राशि का राज्य-वार विवरण अनुबंध-। पर है। आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी और निजी क्षेत्क बैंकों के संबंध में वर्ष2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान सक्रियकिसान क्रेडिटकार्ड(केसीसी) की संख्या और बकाया ऋण राशि का राज्य-वार विवरण अनुबंध-॥ पर है।

आरबीआई और नाबार्ड द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, केसीसी के अंतर्गत तीन लाख रुपए से अधिक के ऋणों के संबंध में पृथक (सेग्रीगेटिड)जानकारी केंद्रीयकृतरूप से नहीं रखी जाती है।

प्राथमिकताप्राम्न क्षेत्द्रधार (पीएसएल) पर भारतीय रिजर्वर्वेक (आरबीआई) के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रबाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, का 18% प्रदानकरना आवश्यक है। भूमिहीन कृषि मजदूरों, काश्तकारों किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटार्इदारकिसानों सहित छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदानकरने के लिए 8% का एक उप-लक्ष् भी विनिर्धारितकिया गया है। इसी प्रकारक्षेत्री स्रामीण बैंकों के मामले में उनके कुल बकाया अग्रिमों का 18% कृषि क्षेत्के लिए

तथा छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण प्रदानकरने के लिए 8% का एक उप-लक्ष् निर्धारितकिया गया है।

नाबार्डद्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, पछिले 3 वर्षके दौरान कृषि ऋण संवतिरण के अंतर्गत छोटे और सीमान्त किसानों का प्रतिशतअंश निम्नानुसार है:

वर्ष	खातों की संख्या	राश
2016-17	72.1 %	50.1 %
2017-18	74.7 %	49.9 %
2018-19 (अनंतिम)	74.3 %	49.9 %

केसीसी योजना के अंतर्गत, सीमांत किसानों को भूमि धारिता के आधार पर और कटाई के बाद भंडारण (वेयर हाउस) से संबंधित ऋण आवश्यकताओं सहित उगाई गई फसलों और कृषि कार्यसंबंधी अन्य व्यय, उपभोग आवश्यकताओं, इत्यादि के साथ-साथ लघु अवधि ऋण निवेशों के लिए भूमि के मूल्य पर ध्यान दिए बिना 10,000 रूपए से 50,000 रूपए तक की लचीली ऋण सीमा (फ्लेक्सी केसीसी के रूप में) उपलब्ध कराई गई है।

औपचारिक ऋण प्रणालीमें छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने संपार्श्विक्मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का निर्णयलिया है।

छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदारों और इनके जैसे के लिए 50,000 रुपये तक के छोटे ऋणों के लिए बेबाकी प्रमाण पत्रकी आवश्यकता को भी खत्म कर दिया गया है और इसके बदले, उधारकर्ता से सिर्फस्व-घोषणा की आवश्यकता है।

छोटे, सीमांत, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है।

अब केसीसी योजना को सरल बनाया गया है, इसमें एटीएम सक्षमरूपे डेबिट कार्डजारी करने की व्यवस्था है, जिसके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, एकबारगी प्रलेखन, सीमा में निहित लागत की वृद्धि, सीमा के तहत अनगनित आहरण आदि की स्विधा उपलब्ध है।

किसान क्रेडिटिकार्ड (केसीसी) के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण सीमा/ऋण राशि का निर्धारण आरबीआई द्वारा जारी 04 जुलाई, 2018 के मास्टर परिपत्र में विनिर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। केसीसी के अंतर्गत, प्रथमवर्ष हेतु अल्पावधि ऋण सीमा फसल के वित्तमानको हिसाब में लेते हुए निर्धारि की जाती है - (जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा यथा निर्धारित) x फसल उगाई वाले क्षेत्की सीमा + फसल कटाई उपरांत/घरेल्/उपभोग अपेक्षाओं हेतु सीमा का 10% + फार्म आस्तियों की मरम्मत तथा रखरखाव व्ययों हेतु सीमा का 20% + फसल बीमा तथा/अथवा व्यक्तिगत दुर्घटनाबीमा योजना (पीएआईएस) सहित दुर्घटनाबीमा, स्वास्थ्य बीमा और आस्ति बीमा। दूसरे और तदनंतर वर्षों (तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष)हेतु सीमा की गणना इस प्रकारकी जाती है - फसल उगाई उद्देश्य हेतु पहले वर्षकी सीमा + लागत वृद्धि/वित्तिक पैमाने में वृद्धि के लिए सीमा का 10% और किसान क्रेडिटकार्डकी अवधि अर्थात्पांच वर्ष के लिए अनुमनित अवधि ऋण घटक।

पांचवे वर्षके लिए निर्धारित अल्पावधि ऋण सीमा जमा अनुमानित दीर्घावधिकि ऋण आवश्यकता अधिकतम अनुमत सीमा (एमपीएल) होगी तथा इसे किसान क्रेडिटिकार्डसीमा माना जाएगा/ ****

दिनोंक 15.07.2019 का लोक सभा अतारांकित प्रभ्रा संख्या 3500 का अनुबंध-।

सहकारी बैंकों और आरआरबी के संबंध में पछिले तीन वर्षके दौरान जारी किए गए केसीसी और स्वीकृत राशि की विवरणी (कुल संख्या, राशि करोड़ रुपए में)

सुर. सं. राजुव्य/संघ राजुव्यक्षेत्र			I			(मुल संख्या, रासा कराइ रुपए म)		
0 गए काइड राशी गए काइड गए काइड 1 आंध्रमण एवं लिकोबार द्वीप 176852 1079.27 175720 1462.58 209895 2358.95 2 अंडमान एवं लिकोबार द्वीप 212 0.08 147 0.42 275 1.78 3 अरुणाचल प्रदेश 56 0.74 0 0.00 275 3.02 4 असम 58321 295.61 108067 418.99 12060 79.44 5 बहित 145160 684.67 58205 349.02 33665 251.36 6 छ्तिसमाड 55957 1309.54 19127 59.61 8994 75.94 7 दादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजराद 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरमियाव प्रदेश 1513		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19 (फरवरी 2019)	
1 आंध्रयस्देश 176852 1079.27 175720 1462.58 209895 2358.95 2 अंडमान एवं निकीबार द्वीप समूह 212 0.08 147 0.42 275 1.78 3 अप्रणावन प्रदेश 56 0.74 0 0.00 275 3.02 4 असम 58321 295.61 108067 418.99 12060 79.44 5 बहिर 145160 684.67 58205 349.02 33665 251.36 6 छत्तीसगढ 55957 1309.54 19127 59.61 8994 75.94 7 दादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 दमन और दीव 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजराद 6797 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हर्मिणण 37148 909.64 41003 1142.81 38691 <td< th=""><th></th><th></th><th>जारी करि</th><th>स्वीकृत</th><th>जारी करि</th><th>स्वीकृत राश</th><th>जारी करि</th><th>स्वीकृत राश</th></td<>			जारी करि	स्वीकृत	जारी करि	स्वीकृत राश	जारी करि	स्वीकृत राश
2 अंडमान एवं निक्षाबार द्वीप समूह 212 0.08 147 0.42 275 1.78 3 अंप्रणाचल प्रदेश 56 0.74 0 0.00 275 3.02 4 असम 58321 295.61 108067 418.99 12060 79.44 5 विहोर 145160 684.67 58205 349.02 33665 251.36 6 छत्तीसगढ 55957 1309.54 19127 59.61 8994 75.94 7 दादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 दमन और दीव 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरणिणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12			गए कार्ड	राश	गए कार्ड		गए कार्ड	
2 समृह् 212 0.08 147 0.42 275 1.78 3 अगुणाचल एरदेश 56 0.74 0 0.00 275 3.02 4 असम 58321 295.61 108067 418.99 12060 79.44 5 बहित 145160 684.67 58205 349.02 3665 251.36 6 छत्तीसगढ 55957 1309.54 19127 59.61 8994 75.94 7 दादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 दनन और दीव 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरिणिणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हमीमचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्म और कंशमी 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14	1	आंध्रप्रदेश	176852	1079.27	175720	1462.58	209895	2358.95
समृह 212 0.08 147 0.42 275 1.78 3 अपुणाचल प्रदेश 56 0.74 0 0 0.00 275 3.02 4 असम 58321 295.61 108067 418.99 12060 79.44 5 बहितर 145160 684.67 582.05 349.02 33665 251.36 6 छत्तीसगढ 55957 1309.54 19127 59.61 8994 75.94 7 दादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 दमन और दीच 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजराल 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरियोणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हिमाचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मूम् और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 4 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्जाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षदचीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 20 मणिपुर 1980 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणिपुर 1980 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 13919 634.33 26 पुरुपेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.2 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1815.50 29 सिक्काम 72 0.20 95 0.22 0 0.00		अंडमान एवं निकोबार द्वीप						
4 असम 58321 295.61 108067 418.99 12060 79.44 5 बहिार 145160 684.67 58205 349.02 33665 251.36 6 छत्तीसगढ़ 55957 1309.54 19127 59.61 8994 75.94 7 द्वादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 दमन और दीव 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरिगाणा 37148 909.64 41003 1142.81 36691 1003.80 12 हमीचल एरदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कशमीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14	2	समूह	212	0.08	147	0.42	275	1.78
5 बहिंस 145160 684.67 58205 349.02 33665 251.36 6 छत्तीसगढ़ 55957 1309.54 19127 59.61 8994 75.94 7 दादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 दमन और दीव 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरमिगणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हरमिग्वल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15<	3	अरुणाचल प्रदेश	56	0.74	0	0.00	275	3.02
6 छत्तिसगढ 55957 1309.54 19127 59.61 8994 75.94 7 दादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 दमन और दीव 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरियाणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हिमाचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्नाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 <t< td=""><td>4</td><td>असम</td><td>58321</td><td>295.61</td><td>108067</td><td>418.99</td><td>12060</td><td>79.44</td></t<>	4	असम	58321	295.61	108067	418.99	12060	79.44
7 दादरा एवं नगर हवेली 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 100 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरियाणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हिमाचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्जाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षदवीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणप्रिर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मजिरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिलेली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुरुपेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्काम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 слиितााड 30 20.64 277493 1790.05	5	बिहार	145160	684.67	58205	349.02	33665	251.36
8 दमन और दीव 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरिगिणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हिगिचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्लाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 <td< td=""><td>6</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>55957</td><td>1309.54</td><td>19127</td><td>59.61</td><td>8994</td><td>75.94</td></td<>	6	छत्तीसगढ़	55957	1309.54	19127	59.61	8994	75.94
9 गोवा 949 0.87 118 1.30 169 2.84 10 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरियाणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हिमाचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्जनाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरत 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षदंवीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणपुर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मजिरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिनाड 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	7	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10 गुजरात 67977 714.75 50753 678.56 78556 1056.12 11 हरियाणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हिमाचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्लाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणपुर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मजिरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुउंपेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थाल 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलेनाड 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	8	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11 हरियाणा 37148 909.64 41003 1142.81 38691 1003.80 12 हिमाचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्नाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणिपुर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मिजोरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थाल 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलेनाइ 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	9	गोवा	949	0.87	118	1.30	169	2.84
12 हिमीचल प्रदेश 15131 218.73 17931 685.23 17356 381.46 13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्नाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0	10	गुजरात	67977	714.75	50753	678.56	78556	1056.12
13 जम्मू और कश्मीर 3987 21.03 7289 71.57 5754 66.14 14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्नाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणपुर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मजिरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालँड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 रिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिनाड 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	11	हरियाणा	37148	909.64	41003	1142.81	38691	1003.80
14 झारखंड 37788 90.68 75137 286.42 72857 330.15 15 कर्नाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणपुर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मजीरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	12	हमािचल प्रदेश	15131	218.73	17931	685.23	17356	381.46
15 कर्नाटक 508324 7618.10 347982 2892.38 332662 1775.12 16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षदवीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0	13	जम्मू और कश्मीर	3987	21.03	7289	71.57	5754	66.14
16 केरल 196859 1205.65 152013 1108.78 153489 1303.81 17 लक्षद्वीप 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणपुर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मिजोरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 लागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 लई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थाल 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिलाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	14	झारखंड	37788	90.68	75137	286.42	72857	330.15
17 लक्षद्वीप	15	कर्नाटक	508324	7618.10	347982	2892.38	332662	1775.12
18 मध्य प्रदेश 196858 491.60 467558 1454.72 44569 704.82 19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणपुर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मजिरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलेनाड 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	16	केरल	196859	1205.65	152013	1108.78	153489	1303.81
19 महाराष्ट्र 210846 468.27 101737 223.36 104466 585.30 20 मणिपुर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मिजोरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलेनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	17	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20 मणपुिर 1980 6.10 4120 10.62 3600 7.88 21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मजीरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05 <td>18</td> <td>मध्य प्रदेश</td> <td>196858</td> <td>491.60</td> <td>467558</td> <td>1454.72</td> <td>44569</td> <td>704.82</td>	18	मध्य प्रदेश	196858	491.60	467558	1454.72	44569	704.82
21 मेघालय 3123 14.43 1338 6.57 1960 15.47 22 मजिरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलेनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	19	महाराष्ट्र	210846	468.27	101737	223.36	104466	585.30
22 मजिरम 3660 18.27 4388 28.80 1818 12.26 23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्निमि 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिनाइ 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	20	मणपुर	1980	6.10	4120	10.62	3600	7.88
23 नागालैंड 680 1.73 0 0.00 130 0.46 24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिनाइ 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	21	मेघालय	3123	14.43	1338	6.57	1960	15.47
24 नई दिल्ली 135 2.36 98 1.99 41 0.82 25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किमि 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिनाइ 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	22	मजोरम	3660	18.27	4388	28.80	1818	12.26
25 ओडिशा 118705 3836.82 93600 1897.92 139199 634.33 26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किमि 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलेनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	23		680	1.73	0	0.00	130	0.46
26 पुदुचेरी 327 2.93 104 0.98 478 4.80 27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	24	नई दल्लिली	135	2.36	98	1.99	41	0.82
27 पंजाब 29618 506.48 14265 430.97 46500 456.24 28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किमि 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमलिनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	25	ओडशा	118705	3836.82	93600	1897.92	139199	634.33
28 राजस्थान 264045 5273.71 221792 2617.95 164271 1813.50 29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलेनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	26	पुदुचेरी	327	2.93	104	0.98	478	4.80
29 सिक्किम 72 0.20 95 0.22 0 0.00 30 तमिलनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	27	पंजाब	29618	506.48	14265	430.97	46500	456.24
30 तमलिनाडु 206270 2008.02 123730 964.16 277493 1790.05	28	राजस्थान	264045	5273.71	221792	2617.95	164271	1813.50
	29	सिक्किमि	72	0.20	95	0.22	0	0.00
45047 45047 570 57	30	तमलिनाडु	206270	2008.02	123730	964.16	277493	1790.05
ડા તલગાના 15894/ 423.8/ 141884 673.62 190119 957.59	31	तेलंगाना	158947	423.87	141884	673.62	190119	957.59
32 त्रिपुरा 5471 9.25 24268 82.97 18271 69.16	32	त्रिपुरा	5471	9.25	24268	82.97	18271	69.16
33 उत्तरप्रदेश 454233 4438.46 559816 6287.75 549276 6113.16	33	उत्तरप्रदेश	454233	4438.46	559816	6287.75	549276	6113.16
34 उत्तराखंड 6055 246.87 2713 14.12 24944 107.28	34	उत्तराखंड	6055	246.87	2713	14.12	24944	107.28
35 पश्चिम बंगाल 52670 158.99 81014 157.21 185314 247.00	35	पश्चमि बंगाल	52670	158.99	81014	157.21	185314	247.00
कल 3018416 32057.70 2896012 24011.60 2717147 22210.04		कुल	3018416	32057.70	2896012	24011.60	2717147	22210.04

स्रोत:नाबार्ड

दिनोंक 15.07.2019 का लोक सभा अतारांकित प्रक्ष संख्या 3500 का अनुबंध-II

सरकारी और निजी क्षेत्क हैं हैं के संबंध में पिछले तीन वर्षके दौरान जारी किए गए केसीसी और स्वीकृत राशि की विवरणी (कुल संख्या एवं राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य				l			
		2010	6-17	2017-18		2018	2018-19	
1		परचािलनरत	बकाया राश	परचालनरत बकाया राश		परचािलनरत	बकाया राश	
		केसीसी		केसीसी		केसीसी		
1	अंडमान	432	298.19	288	288.35	4064	4947.41	
2	आंध्रप्रदेश	1753878	2299666.74	1874715	2429494.78	1960407	2712829.15	
3	अरुणाचल प्रदेश	8574	5488.67	8779	5843.66	57124	29104.42	
4	असम	496801	312670.28	583215	385377.72	643330	446995.37	
5	बिहार	1443624	1111440.81	1321843	1047704.56	1107120	962659.84	
6	चंडीगढ़	10484	54361.30	3536	27354.28	7561	39541.42	
7	छत्तीसगढ़	219235	425922.65	228163	457898.81	222188	483305.52	
8	दादरा एवं नगर हवेली	527	1556.98	535	1428.56	445	693.60	
9	दमन और दीव	314	773.06	391	970.69	393	959.29	
10	दल्लि	4893	27650.61	3277	26089.69	3346	9166.46	
11	गोवा	7212	18358.77	6959	17538.60	13112	30322.23	
12	गुजरात	1070354	2664767.11	1085847	2957906.02	1102994	3112755.61	
13	हरियाणा	654854	2669983.61	676683	2814466.62	669993	2759675.34	
14	हिमाचल प्रदेश	208895	346884.59	213124	364048.89	175421	326032.35	
15	जम्मू और कश्मीर	274609	350375.46	299552	383236.56	330476	418027.03	
16	झारखंड	642314	275237.32	600314	282125.03	596937	306726.19	
17	कर्नाटक	932400	2849586.25	893415	2412133.33	849921	2331345.76	
18	केरल	311424	1196089.65	310145	1211695.16	311868	1308674.13	
19	लक्षद्वीप	508	243.63	488	240.27	43571	84826.84	
20	मध्य प्रदेश	1640177	3437332.64	1642945	3818073.20	1628594	4056616.65	
21	महाराष्ट्र	2446364	3809879.40	2203906	3310354.73	2126422	3550037.88	
22	मणपुर	14988	11381.51	15621	11824.50	13422	10860.36	
23	मेघालय	56598	30797.01	54261	37780.17	51311	33929.51	
24	मजोरम	12395	8366.76	10550	7699.05	9380	7388.92	
25	नागार्लेड	32758	15925.74	28311	14078.83	110716	57653.60	
26	ओडशा	602490	449437.05	654844	485021.01	570404	466905.99	
27	पुदुचेरी	15499	58847.91	4394	14718.28	26819	84088.39	
28	पंजाब	862228	4917378.61	871631	4880757.23	901242	4704885.48	
29	राजस्थान	2000765	5044590.25	2039917	5381633.75	1969220	5555757.01	
30	सिक्किमि	4664	4771.64	4809	3405.65	11319	13955.97	
31	तमलिनाडु	506183	1341306.83	544252	1572608.71	550332	1672988.11	
32	तेलंगाना	1356409	1938726.96	1796333	1770608.54	1765180	1862082.69	
33	त्रपुरा	45739	26058.42	79193	42814.76	84542	60397.89	
34	उत्तराखंड	389100	641787.33	236329	476288.04	266612	540881.71	
35	उत्तरप्रदेश	4450262	6454175.58	4225532	5921402.19	4492539	6743961.60	
36	पश्चमि बंगाल	822998	533069.79	1004036	736448.25	954056	716914.26	
	कुल	23300949	43335189.11	23528133	43311358.47	23632381	45507893.96	

स्रोत:आरबीआई